

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□

written by Chandradip News | December 26, 2024

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪১৮.১৮.০০১.২৪.৪৩০

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪৩১
২৬ ডিসেম্বর ২০২৪

অফিস আদেশ


আজ ২৬.১২.২০২৪ তারিখ রাত ০২:৩০ টায় বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের বিষয় তদন্তের জন্য নিম্নরূপ তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো:

১.	জনাব মোহাম্মদ খালেদ রহীম, অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
২.	জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)	সদস্য
৩.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)	সদস্য
৪.	স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)	সদস্য
৫.	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)	সদস্য-সচিব

২. কমিটির কার্যপরিধি:

- সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের উৎস ও কারণ উদ্ঘাটন;
- অগ্নি দুর্ঘটনার পেছনে কারো ব্যক্তিগত বা পেশাগত দায়দায়িত্ব আছে কি না তা উদ্ঘাটন; এবং
- এ জাতীয় দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সুপারিশ প্রেরণ।

৩। কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। কমিটি আগামী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান করবে।


মো. ইমরান হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ০২২২৩৩৮১২৯৫

ই-মেইল: adm_dis_section@cabinet.gov.bd

□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□

□ □□□ □□□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□ □□, □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
(□□□-□□□□) □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□ (□□□□□ □ □□□ □□□□□□□□) □□□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□)□

□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□
□□□□□□□

written by Chandradip News24 | December 26, 2024



□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□-□□□□ □ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□□ □□□□□□□ □□-□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□
□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□

00000000 00000000 0000 000000

0. 00000000

0000 000000 0000000 0000000000 0.00 000000 0000000 000000 00000000
0000000 000000 0000000000000000 0000000 00000000 000 000 000000 00000000
00000000000 00000 000000000 0000000 0000000 000000 0000000000 0000000
000000000 00000 000 000 0000000000000000 00000000

0. 000000

000000 00000 000000000 00 00000000 00000 000000000 0000 00 000 00000000
00.0 000000000000 000000000 00 000000 00000 0000 000000000000000000000 0
000000000-00000000000000 00000000000 000000000, 00 00000000 0000 0000
00000000000 00000 000000000

0. 00000000000000

00000000000000 000000000000000000 0000000 000000 000000000000 000000 000000
00000 00 0000 000000 000000000000000000 00 000000000000 000000000 00 000000
00000 0000 0000000 000000000 000000 00000 00000 000000 0000000

0. 00000

000000 000000 00 000000000000 000000000 00 000 0.0 000000 00000000 000000
00000 00000 00000 000000 000000000000 00000 000000 00000 00000 00000000
00000 00000000 0000 00000 000000000000 00000000 00000000 0000 0000 00000
00000000000000 0000000

0. 0000000000

0000000000 000000000 00-00 00000000 000000 00000 00 00000000000 00.0
000000000000 0000000000 00 000000 00 000000000000000000000000000000000
00000000000000 0000000 00000 0000 00000000 00000 000000000000 00000000
00000000 00000

0. 000000

00 0000 00000000 00.0 000000000000 000000000 00 000 0 000000 00000000
0000000 0000000 0000000000 00-0000 0000000 0000, 00 0000 0000000 0000 0000
00000 00000 00000000 0000000000 00000

0. 00000

00000 00000 0000 00 000000000000 000000000 00 0000 00.0 00000000000
0000000000 00 0000000 00000000000 000000 00000 00000 00000000 00000000

(ॐ), ॐॐ ॐॐ-ॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ

ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ, ॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐ
ॐॐॐॐॐ, ॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ (ॐॐॐ
ॐॐॐॐॐॐ-ॐ ॐॐ-ॐॐॐॐ) ॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐ ॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐ. ॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐ ॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐॐॐ
ॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐ

ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐ, ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐ
ॐॐॐॐॐ

ॐॐॐ: ॐॐ-ॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ, ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐ ॐॐ ॐॐ ॐॐ

ॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ
ॐॐॐॐॐ-ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐॐ ॐॐ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব (স্বাস্থ্য) পদে অধিষ্ঠিত আছেন।
 তিনি স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছেন।
 তাঁর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।
 তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।
 তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।

তিনি স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছেন।
 তাঁর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।
 তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।
 তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।
 তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।

তিনি স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছেন।
 তাঁর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।
 তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।
 তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।
 তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।

উপ-সচিব (স্বাস্থ্য) পদে অধিষ্ঠিত আছেন।
 তিনি স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছেন।
 তাঁর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।
 তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।
 তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।

তিনি স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছেন।
 তাঁর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।
 তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।
 তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।
 তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।

आज का दिन, हमें याद रखना है कि

हमें-किसी भी काम में जल्दबाजी न करनी चाहिए। हमें धैर्य रखना है और हर काम को सही तरीके से पूरा करना है। हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है।

आज, हमें अपने-आपको याद दिलाना है कि हमें अपने कामों में लगन और उत्साह से काम करना है। हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है। हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है।

आज का दिन हमें याद दिलाना है कि हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है। हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है। हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है।

आज का दिन हमें याद दिलाना है कि हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है। हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है। हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है।

आज का दिन हमें याद दिलाना है कि हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है। हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है। हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है।

आज का दिन हमें याद दिलाना है कि हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है। हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है। हमें अपने सुख और कल्याण के लिए प्रयास करना है।

written by Chandradip News24 | December 26, 2024



Spices are used in various ways: some are used to flavor food, some are used in traditional medicine, and some are used in perfumery. They are also used in religious and cultural ceremonies. The use of spices has a long history, dating back to ancient times. They were used to preserve food and to trade between different regions. Today, spices are still an important part of many cuisines and cultures.

Spices are also used in traditional medicine. They are believed to have various health benefits, such as improving digestion, boosting the immune system, and reducing inflammation. Some spices are also used in aromatherapy to help with stress and anxiety.

Spices are also used in perfumery. They are used to create a variety of scents, from floral to spicy. Some spices are also used in incense and candles.

Spices are also used in religious and cultural ceremonies. They are used to create a variety of scents, from floral to spicy. Some spices are also used in incense and candles.

Spices are also used in traditional medicine. They are believed to have various health benefits, such as improving digestion, boosting the immune system, and reducing inflammation. Some spices are also used in aromatherapy to help with stress and anxiety.

Spices are also used in perfumery. They are used to create a variety of scents, from floral to spicy. Some spices are also used in incense and candles.

Spices are also used in religious and cultural ceremonies. They are used to create a variety of scents, from floral to spicy. Some spices are also used in incense and candles.

आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी मदद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपका समय और ध्यान कृतज्ञता है।

आपका आभार व्यक्त करता हूँ?

आपका-आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी मदद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपका समय और ध्यान कृतज्ञता है।

आभार

आभार व्यक्त करता हूँ, आपकी मदद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपका समय और ध्यान कृतज्ञता है।

आभार व्यक्त करता हूँ, आपकी मदद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपका समय और ध्यान कृतज्ञता है।

आभार व्यक्त करता हूँ

written by Chandradip News24 | December 26, 2024



糖是日常生活中不可或缺的一部分，它不仅能为我们的食物增添甜味，还能提供能量。在烘焙中，糖更是扮演着至关重要的角色。无论是蛋糕、面包还是饼干，适量的糖都能让它们变得更加美味可口。此外，糖还具有保湿作用，能延长食品的保质期。因此，了解如何正确使用糖，对于提升我们的生活品质至关重要。

在烹饪过程中，糖的添加时机和量都非常关键。例如，在煮汤或炖菜时，过早加入糖可能会导致汤汁变得过甜，影响整体的风味。而在烘焙时，糖的加入则会影响面团的发酵和膨胀。因此，我们需要根据不同的食谱和烹饪方法，灵活调整糖的用量和添加时间，以达到最佳的效果。

除了作为调味品外，糖还具有多种健康益处。适量的糖摄入可以帮助维持血糖稳定，为身体提供必要的能量。此外，糖还能促进消化，缓解便秘。然而，过量摄入糖则会对健康产生负面影响，如导致肥胖、糖尿病等。因此，我们在享受甜食的同时，也要注意控制摄入量，保持均衡的饮食结构。

总的来说，糖在我们的生活中扮演着多重角色。它不仅是美味的来源，更是健康生活的基石。通过了解糖的特性和使用技巧，我们可以更好地利用它，让我们的生活更加丰富多彩。无论是简单的日常烹饪，还是精致的烘焙艺术，糖都是我们不可或缺的好帮手。

आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी मदद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपकी टीम का काम बहुत ही पेशेवरी है। मैंने आपकी सेवाओं का उपयोग करने में बहुत ही खुश महसूस किया है।

आपकी टीम, आपकी मदद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपकी टीम का काम बहुत ही पेशेवरी है। मैंने आपकी सेवाओं का उपयोग करने में बहुत ही खुश महसूस किया है।

आपकी मदद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपकी टीम का काम बहुत ही पेशेवरी है। मैंने आपकी सेवाओं का उपयोग करने में बहुत ही खुश महसूस किया है।

आपकी मदद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपकी टीम का काम बहुत ही पेशेवरी है। मैंने आपकी सेवाओं का उपयोग करने में बहुत ही खुश महसूस किया है।

आपकी मदद से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपकी टीम का काम बहुत ही पेशेवरी है। मैंने आपकी सेवाओं का उपयोग करने में बहुत ही खुश महसूस किया है।

written by Chandradip News24 | December 26, 2024



Figure 1: A night photograph of a building with a large circular light fixture, possibly a fire or explosion, with some trees in the foreground.

Figure 2: A night photograph of a building with a large circular light fixture, possibly a fire or explosion, with some trees in the foreground.

Figure 3: A night photograph of a building with a large circular light fixture, possibly a fire or explosion, with some trees in the foreground.

Figure 4: A night photograph of a building with a large circular light fixture, possibly a fire or explosion, with some trees in the foreground.

Figure 5: A night photograph of a building with a large circular light fixture, possibly a fire or explosion, with some trees in the foreground.

ଅନୁଭବ କି ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁ ଅନୁଭବ ଅନୁ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ
ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ, ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ
ଅନୁଭବଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ

ଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ,
“ଅନୁଭବଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ
ଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ”

ଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବ
ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବ
ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବ

ଅନୁଭବ: ଅନୁଭବ-ଅନୁଭବ
ଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବଅନୁଭବ, ଅନୁଭବଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ

ଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବ
ଅନୁଭବଅନୁଭବଅନୁଭବ ଅନୁଭବଅନୁଭବଅନୁଭବ

written by Chandradip News24 | December 26, 2024



အထူးအားဖြင့် အခြား အစားအသောက် ပစ္စည်းများကို အားလုံး နှုတ်ခတ်ရန် အစိုးရက မိမိတို့ ပြင်ဆင်နေသော အစည်းအဝေး အောက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

“အဖွဲ့အစည်း အားလုံး အားဖြင့် ဖော်ပြပေးပြီးနောက်၊ အစည်းအဝေးအတွင်း အဖွဲ့အစည်း အားလုံး အားဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သည်”

အထူးအားဖြင့် အခြား အစားအသောက် ပစ္စည်းများကို အားလုံး နှုတ်ခတ်ရန် အစိုးရက မိမိတို့ ပြင်ဆင်နေသော အစည်းအဝေး အောက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

written by Chandradip News24 | December 26, 2024



အထူးအားဖြင့် အခြား အစားအသောက် ပစ္စည်းများကို အားလုံး နှုတ်ခတ်ရန် အစိုးရက မိမိတို့ ပြင်ဆင်နေသော အစည်းအဝေး အောက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ (၂၀) နာရီ အတွင်း အစည်းအဝေးအတွင်း အဖွဲ့အစည်း အားလုံး အားဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သည်။

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

